

WISDOM FOR THE YOUTH

युवाओं के लिए
खुफिया जानकारी



WRITTEN BY:
ROGER ALIM RODRIGUEZ

Wisdom For the Youth

(Words worthy to live by and
treasure for life)

~~~~~

HINDI VERSION

युवाओं के लिए  
खुफिया जानकारी  
(जीवन में तब तक जीने  
के लिए योग्य शब्द)

युवाओं के लिए खुफिया जानकारी  
(Wisdom for the Youth)  
Copyright Registered 2019

**No part of this material  
shall be reproduced  
without our consent.**

द्वारा तैयार:  
Prepared by:

Roger Alim Rodriguez

“मेरे बच्चे, अगर तुम  
समझदार हो जाओगे,  
तो मुझे बहुत खुशी  
होगी। मुझे गर्व होगा  
जब मैं आपको ज्ञान  
के शब्द बोलते हुए

सुनूंगा। ” (नीतिवचन 23:15-16)

***“My child, if you  
become wise, I will be  
very happy. I will be  
proud when I hear  
you speaking words  
of wisdom.”*** (Proverbs

23:15-16. Good News Bible).

| <b>Table of Contents</b>                   | <b>Pages</b> |
|--------------------------------------------|--------------|
| Words Worthy to<br>treasure for life ..... | 6            |
| Advices to the Young .....                 | 44           |
| Proverbs 3:1-35                            |              |
| Hindi version .....                        | 45           |
| English version .....                      | 62           |
| The Benefits of Wisdom .....               | 73           |
| Proverbs 4:1-27                            |              |
| Hindi version .....                        | 74           |
| English version .....                      | 86           |
| Warning                                    |              |
| Hindi version .....                        | 94           |
| English version .....                      | 99           |
| Invitation .....                           | 102          |

जीवन में तब तक  
जीने के लिए योग्य  
शब्द

(Worthy words to  
live in life)

~ ~ ~

मूर्तियों और चित्रों पर  
कभी घुटने न टेके

NEVER KNEEL ON  
IDOLS, IMAGES OR  
PAINTINGS

‘किसी की मूर्तियाँ या  
किसी के चित्र जो  
आकाश में ऊपर, पृथ्वी  
पर या नीचे समुद्र में हों,  
न बनाओ। किसी प्रकार

के प्रतीक की पूजा या सेवा न करो। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं अपने लोगों द्वारा किसी अन्य देवता की पूजा से घृणा करता हूँ। ऐसे लोग जो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं, मेरे शत्रु हो जाते हैं। मैं



उन लोगों को दण्ड दूँगा  
और मैं उनके पुत्रों, पौत्रों  
और प्रपौत्रों को दण्ड  
दूँगा।

किन्तु मैं उन लोगों  
पर बहुत दयालु रहूँगा  
जो मुझसे प्रेम करते हैं।  
और मेरे आदेशों को  
मानते हैं। मैं उनकी

सहस्र पीढी तक उन पर  
दयालु रहूँगा!

“You shall not  
make for yourself a  
carved image, or any  
likeness of anything  
that is in heaven  
above, or that is on  
the earth beneath, or  
that is in the water  
under the earth. You  
shall not bow down

to them or serve them; for I the Lord your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and

keep my commandments."(Deuteronomy 5:8 to 10. ESV).

~~~

उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया और वे सृष्टि के बनाने वाले को छोड़ कर उसकी बनायी सृष्टि की उपासना सेवा

करने लगे। परमेश्वर
धन्य है। आमीन।.

"They exchanged the truth about God for a lie, and worshiped and served created things rather than the Creator—who is forever praised. Amen." (*Romans 1:25*, NIV).

~ ~ ~

अपने पिता और माँ
का सम्मान करें
OBEY OUR PARENTS

हे बालकों, प्रभु में
आस्था रखते हुए
माता-पिता की आज्ञा
का पालन करो
क्योंकि यही उचित
है। “अपने माता-

पिता का सम्मान
कर।” यह पहली
आज्ञा है जो इस
प्रतिज्ञा से भी युक्त
है, ³“तेरा भला हो
और तू धरती पर
चिरायु हो।”

Children, obey your
parents because you
belong to the Lord,

for this is the right thing to do. “Honor your father and mother.” This is the first commandment with a promise: If you honor your father and mother, “things will go well for you, and you will have a long life on the earth.” (Ephesians 6:1-3. NLT)

~ ~ ~

अच्छे कार्यों में व्यस्त
रहें

BE BUSY WITH GOOD
WORKS

**अपने बच्चों
को सही रास्ते पर ले
जाएं, और जब वे बड़े
हो जाएंगे, तो वे इसे**

नहीं छोड़ेंगे।

**Direct your children
onto the right path,
and when they are
older, they will not
leave it. (Proverbs 22:6).**

~ ~ ~

**जो सुख पसंद
करते हैं वे गरीब हो
जाते हैं; प्यार करने**

वाली शराब और तेल
भी धन नहीं लाते हैं।

**Pleasure lovers
become poor; loving
wine and oil doesn't
bring riches.** (Proverbs 21:17.
ISV)

~ ~ ~

वे खाएंगे, लेकिन
उनके पास पर्याप्त नहीं
होगा; वे वेश्यावृत्ति में

संलग्न होंगे, लेकिन वे
निःसंतान होंगे, क्योंकि
उन्होंने वेश्यावृत्ति के
लिए खुद को देने के
लिए भगवान को छोड़
दिया है; पुरानी शराब
और नई शराब उनकी
समझ को छीन लेती है।

**They will eat but
will not have enough;**

**they will engage in
prostitution but will
not have children,
because they have
deserted the Lord to
give themselves to
prostitution; old wine
and new wine take
away their
understanding. (Hosea
4:10-11).**

~ ~ ~

उन बुरी चीज़ों से दूर
रहें जो आप जैसे युवा
व्यक्ति आमतौर पर
करना चाहते हैं। सही
जीवन जीने के लिए और
दूसरों के साथ मिलकर,
जो सच्चे दिल से प्रभु
पर भरोसा करते हैं,

उनके साथ रहने की पूरी
कोशिश करें।

Stay away from the
evil things a young
person like you
typically wants to do.
Do your best to live
right and to have faith,
love, and peace,
together with others
who trust in the Lord
with pure hearts.

(2 Timothy 2:22. ERV)

~ ~ ~

भटकना बंद करो:
"अच्छी आदतों से बुरी
आदतें नष्ट हो जाती
हैं।" होश में आओ,
अच्छा जीवन लो, जैसा
तुम्हें होना चाहिए। पाप
करना बंद करो क्योंकि
आप में से कुछ ऐसे हैं
जो भगवान के बारे में

कुछ नहीं जानते हैं। मैं
यह कह रहा हूँ कि आप
अपना चरित्र बदल
सकते हैं।

Don't be fooled:
"Bad friends will ruin
good habits." Come
back to your right way
of thinking and stop
sinning. Some of you
don't know God. I say

this to shame you.
(1 Corinthians 15:33-34. ERV).

~ ~ ~

**हम विश्वास के साथ
मिलकर काम करते हैं
WORK WITH FAITH**

**जिस प्रकार आत्मा का
शरीर मृत है, उसी प्रकार
अच्छे कार्यों के बिना
विश्वास मर चुका है।**

**"Just as the body
is dead without breath,
so also faith is dead
without good works."**

(James 2:26. NLT)

~ ~ ~

**"तो आप देखते हैं,
अपने आप में विश्वास
पर्याप्त नहीं है। जब
तक यह अच्छे कर्मों
का उत्पादन नहीं**

करता है, यह मृत
और बेकार है।"

"So you see, faith by
itself isn't enough.
Unless it produces
good deeds, it is
dead and useless."

(James 2:17. NLT)

~ ~ ~

माना कि यीशु मसीह
परमेश्वर है, परमेश्वर
का पुत्र है।

Believe that Jesus
Christ is God, the Son
of God

"हालांकि वह भगवान
थे, उन्होंने भगवान के
साथ समानता के बारे में

नहीं सोचा था कि उन्हें कुछ करना है। इसके बजाय, उन्होंने अपने दिव्य विशेषाधिकारों को छोड़ दिया, उन्होंने एक दास की विनम्र स्थिति ली और एक इंसान के रूप में पैदा हुए। जब वे मानव में दिखाई दिए। रूप में, उसने अपने आप

को भगवान की
आज्ञाकारिता में विनम्र
किया और एक अपराधी
की एक क्रूस पर मृत्यु हो
गई।

"Though he was God,
he did not think of
equality with God as
something to cling to.
Instead, he gave up
his divine privileges,

he took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. (Philippians 2:6-8. NLT)

~ ~ ~

दया करो और हम दया
प्राप्त करेंगे।

GIVE MERCY AND WE
WILL RECEIVE MERCY

"इसे अपने दिमाग में
रखें: अगर आपका भाई
आपके खिलाफ पाप
करता है, तो उसे
फटकारें, और अगर वह

पछताता है, तो उसे
माफ कर दो, और अगर
एक दिन में सात बार
वह तुम्हारे खिलाफ पाप
करता है, और दिन में
सात बार माफी मांगता
है और वह पश्चाताप,
आपको उसे माफ करना
होगा।

"Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him. And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him."

(Luke 17:3-4. KJV)

~ ~ ~

"अगर कोई आदमी कहता है, मैं भगवान से प्यार करता हूं, और अपने भाई से नफरत करता हूं, तो वह झूठा है: क्योंकि वह अपने भाई से प्यार नहीं करता है, जिसे उसने देखा है, वह भगवान को कैसे प्यार

कर सकता है जिसे
उसने नहीं देखा है? और
हम भगवान से इस
आज्ञा को प्राप्त करते हैं,
कि जो भगवान से प्यार
करता है उसे अपने भाई
से भी प्यार करना
चाहिए।

"If a man say, I love
God, and hateth his
brother, he is a liar:

**for he that loveth not
his brother whom he
hath seen, how can
he love God whom he
hath not seen? And
this commandment
have we from him,
That he who loveth
God love his brother
also." (1 John 4:20-21. KJV)**

~ ~ ~

"लेकिन अगर किसी के पास दुनिया का सामान है और वह अपने भाई को ज़रूरत में देखता है, फिर भी उसके खिलाफ अपने दिल को बंद कर देता है, तो भगवान का प्यार उसके अंदर कैसे आता है? छोटे बच्चों,

हमें शब्द या बात में
प्यार नहीं करना चाहिए
लेकिन काम और
सच्चाई में।

"But if anyone has
the world's goods and
sees his brother in
need, yet closes his
heart against him, how
does God's love abide
in him? Little children,
let us not love in word

**or talk but in deed
and in truth." (1 John 3:17-18.
ESV)**

~ ~ ~

हमारी आत्मा इस पृथ्वी
के सभी धन से अधिक
मूल्य की है।

OUR SOUL IS WORTH
MORE THAN ALL THE
RICHES OF THIS
EARTH

"एक आदमी को क्या लाभ होता है, अगर उसे पूरी दुनिया को हासिल करना चाहिए और उसकी आत्मा को नुकसान उठाना चाहिए? या एक आदमी को अपनी आत्मा के बदले में क्या देना चाहिए?"

"For what does a man profit, if he should gain the whole world and suffer the loss of his soul? or what shall a man give in exchange for his soul?"

[Matthew 16:26. Darby Translation].

नौजवानों को सलाह

(Advices to the young)

~ ~ ~

नीतिवचन 3: 1-35

(Proverbs 3:1-35)

हे मेरे पुत्र, मेरी
शिक्षा मत भूल, बल्कि
तू मेरे आदेश अपने
हृदय में बसा ले।
क्योंकि इनसे तेरी आयु
वर्षों वर्ष बढ़ेगी और ये

तुझको समपन्न कर
देगें।

दया और सच्चाई का
त्याग न करें, उन्हें
अपनी गर्दन के चारों
ओर बांधें; उन्हें अपने
हृदय की मेज पर
लिखो: ताकि तुम
परमेश्वर और मनुष्य
की दृष्टि में अनुग्रह

और अच्छी समझ
पाओ।

अपने पूरे दिल से
भगवान पर भरोसा
रखो; और अपनी
समझ पर भरोसा मत
करो; अपने सभी
तरीकों से परमेश्वर
को पहचानो, और

परमेश्वर तुम्हारे मार्गों
को निर्देशित करेगा।

अपनी दृष्टि में
बुद्धिमान मत बनो:
प्रभु से डरो, और
बुराई से विदा लो। यह
आपकी नाभि के लिए
स्वास्थ्य, और आपकी
हड्डियों के लिए
मज्जा होगा।

अपने पदार्थ के साथ,
और अपने पहले कटे
हुए फलों के साथ प्रभु
का सम्मान करें: तो
तेरे खलिहान खूब भर
जाएंगे, और तेरी
शराब नई शराब के
साथ फट जाएगी।

मेरे पुत्र को प्रभु के
अनुशासन का

तिरस्कार मत करना;
न ही आपको प्रभु की
सजा से थका होना
चाहिए: क्योंकि प्रभु
उनसे प्यार करता है
जिन्हें उसने ठीक
किया; बेटे के पिता के
रूप में भी, जिसमें वह
उनकी खुशी थी।

खुश वह आदमी है जो
ज्ञान पाता है, और
वह आदमी जो समझ
पाता है।

ज्ञान के लाभ के लिए
चांदी की तुलना में
बेहतर है, और ज्ञान
का लाभ ठीक सोने से
अधिक है।

माणिक की तुलना में
ज्ञान अधिक कीमती
है: और वे सभी चीजें
जिनकी आप इच्छा
कर सकते हैं, उनकी
तुलना उनसे नहीं की
जा सकती।

दिनों की लंबाई ज्ञान
के दाहिने हाथ में है,

और बाएं धन और
सम्मान में।

बुद्धि के मार्ग
सुखमय हैं, और इसके
सभी मार्ग शांति के
हैं।

बुद्धि उनके लिए
जीवन का एक पेड़ है
जो उस पर पकड़

रखता है; और जो उसे
बनाए रखते हैं उनके
लिए खुशी।

बुद्धि से प्रभु ने पृथ्वी
की स्थापना की; और
भगवान की समझ के
माध्यम से स्वर्ग।

भगवान के ज्ञान से
सबसे गहरा हिस्सा

टूट जाता है, और
बादल ओस से नीचे
गिर जाते हैं।

मेरे बेटे, उन्हें अपनी
आंखों से दूर न होने
दें: ध्वनि ज्ञान और
विवेक रखें: तो क्या वे
आपकी आत्मा को
जीवन और आपकी

गर्दन के लिए एहसान
जताएंगे।

तब तुम अपने मार्ग
में सुरक्षित रूप से
चलना, और तुम्हारा
पैर नहीं डगमगाएगा।

जब तुम लेट जाओगे,
तो तुम डरो मत: हाँ,
तुम लेट जाओगे, और

तुम्हारी नींद मीठी
होगी।

अचानक डर से न डरें,
न ही दुष्टों के हमले
से, जब यह आता है।
क्योंकि प्रभु तुम्हारी
ढाल और
आत्मविश्वास होगा,
और परमेश्वर तुम्हें
कैद से बचाएगा।

यदि आप दूसरों के लिए सभी अच्छे काम कर सकते हैं, और यह आपकी शक्ति और आपके हाथों के भीतर है कि यह करना है, जाओ और इसे करो।

अपने पड़ोसी से न कहो, जाओ, और फिर

आओ, और कल मैं
तुम्हें दूंगा; जब आपके
पास पहले से ही है।

अपने पड़ोसी के
खिलाफ बुराई न करें,
यह देखकर कि वह
आपके पड़ोस में
सुरक्षित रूप से रहता
है।

बिना कारण के किसी
व्यक्ति के साथ बहस
न करें, अगर उसने
आपका कोई नुकसान
नहीं किया है।

ज़ालिम से ईर्ष्या न
करें, और उसके किसी
भी तरीके को न चुनें।
प्रभु एक धोखेबाज से
नफरत करता है:

लेकिन प्रभु का रहस्य
धर्मी के साथ है।

यहोवा का शाप दुष्टों
के घर में है: परन्तु
वह बस्ती के लोगों
को आशीर्वाद देता है।
निश्चित रूप से वह
बदमाशों का उपहास
करता है: लेकिन वह

नीच लोगों पर अनुग्रह
करता है।

बुद्धि वाले लोग
महिमामंडित होंगे:
लेकिन शर्म मूर्खों के
लिए होगी।

Proverbs 3:1-35

(King James Version)



My son, forget not
my law; but let thine
heart keep my

commandments: For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own

understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
(underline supplied).

Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase: So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses

shall burst out with
new wine.

My son, despise not
the chastening^(discipline)
of the Lord; neither be
weary^(detest) of his
correction^(reproof): For
whom the Lord loveth
he correcteth; even as
a father the son in
whom he delighteth.

Happy is the man
that findeth wisdom,
and the man that
getteth understanding.
(underline supplied)

For the merchant-
dise^(profit) of it is better
than the merchandise
of silver, and the gain
thereof than fine gold.

She^(wisdom) is more
precious than rubies:
and all the things thou
canst desire are not to
be compared unto her.

Length of days is in
her right hand; and in
her left hand riches
and honour.

Her ways are ways
of pleasantness, and all
her paths are peace.

She is a tree of life to
them that lay hold
upon her: and happy is
every one that
retaineth her.

The Lord by wisdom
hath founded the earth;
by understanding hath
he established the
heavens.

By his knowledge
the depths are broken

up, and the clouds
drop down the dew.

My son, let not them
depart from thine eyes:
keep sound wisdom
and discretion: So shall
they be life unto thy
soul, and grace to thy
neck.

Then shalt thou walk
in thy way safely, and
thy foot shall not
stumble.

When thou liest
down, thou shalt not be

afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation^(attack) of the wicked, when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.

Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the

power of thine hand to
do it.

Say not unto thy
neighbour, Go, and
come again, and to
morrow I will give;
when thou hast it by
thee^(When you have it with you).

Devise not evil
against thy neighbour,
seeing he dwelleth
securely by thee.

Strive^(argue) not with a
man without cause, if

he have done thee no harm.

Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward^(deceitful) is abomination to the Lord: but His secret is with the righteous.

The curse of the Lord is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just. Surely he scorneth the scorners:

but he giveth grace
unto the lowly.

The wise shall
inherit glory: but
shame shall be the
promotion of fools.
[Proverbs 3:1-35 King
James Version].

**लाभ
का
अंतर्दृष्टि**

**The Benefits
of
WISDOM**

नीतिवचन 4:1-27



हे मेरे पुत्रों, एक
 पिता की शिक्षा को सुनों
 उस पर ध्यान दो और
 तुम समझ बूझ पा लो!
 मैं तुम्हें गहन—गम्भीर
 ज्ञान देता हूँ। मेरी इस
 शिक्षा का त्याग तुम
 मत करना।

जब मैं अपने पिता के घर एक बालक था और माता का अति कोमल एक मात्र शिशु था, मुझे सिखाते हुये उसने कहा था—मेरे वचन अपने पूर्ण मन से थामे रह। मेरे आदेश पाल तो तू जीवन रहेगा। तू बुद्धि प्राप्त कर और समझ

बूझ प्राप्त कर! मेरे
 वचन मत भूल और
 उनसे मत डिग। बुद्धि
 मत त्याग वह तेरी रक्षा
 करेगी, उससे प्रेम कर
 वह तेरा ध्यान रखेगी।

“बुद्धि का आरम्भ ये
 है: तू बुद्धि प्राप्त कर,
 चाहे सब कुछ दे कर भी
 तू उसे प्राप्त कर!

तू समझबूझ प्राप्त
कर। तू उसे महत्व दे,
वह तुझे ऊँचा उठायेगी,
उसे तू गले लगा ले वह
तेरा मान बढ़ायेगी।

वह तेरे सिर पर शोभा
की माला धरेगी और वह
तुझे एक वैभव का मुकुट
देगी।”

सुन, हे मेरे पुत्र। जो मैं
कहता हूँ तू उसे ग्रहण
कर! तू अनगिनत सालों
साल जीवित रहेगा।

मैं तुझे बुद्धि के मार्ग
की राह दिखाता हूँ, और
सरल पथों पर अगुवाई
करता हूँ।

जब आप चलते हैं, तो
आपका कदम बाधा
नहीं बनेगा, और यदि
आप दौड़ते हैं, तो
आप ठोकर नहीं
खाएंगे।

हिदायत रखो; उसे
जाने मत दो; उसकी
रक्षा करो, क्योंकि वह
तुम्हारा जीवन है।

तू दुष्टों के पथ पर
चरण मत रख या पापी
जनों की राह पर मत
चल। तू इससे बचता
रह, इसपर कदम मत
बढ़ा। इससे तू मुड़ जा।
तू अपनी राह चल।

वे बुरे काम किये बिना
सो नहीं पाते। वे नींद खो
बैठते हैं जब तक किसी

को नहीं गिराते। वे तो बस सदा नीचता की रोटी खाते और हिंसा का दाखमधु पीते हैं।

किन्तु धर्मी का पथ वैसा होता है जैसी प्रातः किरण होती है। जो दिन की परिपूर्णता तक अपने प्रकाश में बढ़ती ही चली जाती है।

किन्तु पापी का मार्ग
सघन, अन्धकार जैसा
होता है। वे नहीं जान
पाते कि किससे टकराते
हैं।

हे मेरे पुत्र, जो कुछ मैं
कहता हूँ उस पर ध्यान
दे। मेरे वचनों को तू
कान लगा कर सुन।

उन्हें अपनी दृष्टि से
ओझल मत होने दे।
अपने हृदय पर तू उन्हें
धरे रह। क्योंकि जो
उन्हें पाते हैं उनके लिये
वे जीवन बन जाते हैं
और वे एक पुरुष की
समपूर्ण काया का
स्वास्थ्य बनते हैं।

सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रह। क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं।

तू अपने मुख से कुटिलता को दूर रख। तू अपने होठों से भ्रष्ट बात दूर रख। तेरी आँखों के

आगे सदा सीधा मार्ग रहे
और तेरी टकटकी आगे
ही लगी रहें।

अपने पैरों को एक
अच्छी तरह से सोचा
रास्ते पर चलें, और
अपने सभी तरीकों को
सही ढंग से स्थापित
करें।

दाईं ओर या बाईं
ओर न मुड़ें: अपने पैरों
को बुराई से हटाएं

Proverbs 4:1-27

(King James Version)



Hear, ye children,
the instruction of a
father, and attend to
know understanding.
For I give you good
doctrine, forsake ye
not my law.

For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.

He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.

Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.

Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.

Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.

Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.

She shall give to
thine head an
ornament of grace: a
crown of glory shall
she deliver to thee.

Hear, O my son, and
receive my sayings;
and the years of thy life
shall be many. I have
taught thee in the way
of wisdom; I have led
thee in right paths.

When thou goest,
thy steps shall not be
restrained; and when

thou runnest, thou shalt
not stumble.

Take fast hold of
instruction; let her not
go: keep her; for she is
thy life.

Enter not into the
path of the wicked, and
go not in the way of
evil men.

Avoid it, pass not by
it, turn from it, and
pass away.

For they sleep not,
except they have done

mischievous; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.

For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.

The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.

My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth, and

perverse lips put far
from thee.

Let thine eyes look
right on, and let thine
eyelids look straight
before thee.

Ponder the path of
thy feet, and let all thy
ways be established.

Turn not to the right
hand nor to the left:
remove thy foot from
evil. [Proverbs 4:1-27 King
James Version].

~ ~ ~

चेतावनी

(नीतिवचन 1:23-33)

यदि मेरी फटकार तुम
पर प्रभावी होती तो मैं
तुम पर अपना हृदय
उंडेल देती और तुम्हें
अपने सभी विचार जना
देती।

“किन्तु क्योंकि तुमने
तो मुझको नकार दिया
जब मैंने तुम्हें पुकारा,
और किसी ने ध्यान न
दिया, जब मैंने अपना
हाथ बढ़ाया था। तुमने
मेरी सब सम्मतियाँ
उपेक्षित कीं और मेरी
फटकार कभी नहीं
स्वीकारिं! इसलिए,

बदले में, मैं तेरे नाश पर
हसूँगी। मैं उपहास
करूँगी जब तेरा विनाश
तुझे घरेगा! जब विनाश
तुझे वैसे ही घरेगा जैसे
भीषण बबूले सा बवण्डर
घेरता है, जब विनाश
जकड़ेगा, और जब
विनाश तथा संकट तुझे
डुबो देंगे।

“तब, वे मुझको पुकारेंगे
किन्तु मैं कोई भी उत्तर
नहीं दूँगी। वे मुझे ढूँढते
फिरेगें किन्तु नहीं
पायेंगे। क्योंकि वे सदा
ज्ञान से घृणा करते रहे,
और उन्होंने कभी नहीं
चाहा कि वे यहोवा से
डरें। क्योंकि वे, मेरा
उपदेश कभी नहीं धारण

करेंगे, और मेरी ताड़ना
का तिरस्कार करेंगे। वे
अपनी करनी का फल
अवश्य भोगेंगे, वे अपनी
योजनाओं के कुफल से
अघायेंगे!

“सीधों की मनमानी
उन्हें ले डूबेगी, मूर्खों का
आत्म सुख उन्हें नष्ट
कर देगा। किन्तु जो

मेरी सुनेगा वह सुरक्षित
रहेगा, वह बिना किसी
हानि के भय से रहित
वह सदा चैन से रहेगा।”

WARNING

(Proverbs 1:23-33)

“Come and listen to
my counsel.

I'll share my heart
with you and make you
wise.

“I called you so often, but you wouldn’t come. I reached out to you, but you paid no attention. You ignored my advice and rejected the correction I offered. So I will laugh when you are in trouble!

I will mock you when disaster overtakes you — when calamity overtakes you like a storm, when disaster engulfs you like a cyclone, and

anguish and distress
overwhelm you.”
[Proverbs 1:23–33]

~ ~ ~

Invitation

आमंत्रण

~~~~~

We have just read a small part of the Bible.

हमने सिर्फ बाइबल  
का एक छोटा सा हिस्सा  
पढ़ा है।

It is our wish we may be able to read the whole Bible also.

यह हमारी इच्छा है कि आप पूरी बाइबल भी पढ़ सकें।

Gradually, every morning God has given us life and breath, we may be able to read the pages of the Holy Book, the Bible.

धीरे-धीरे, हर सुबह  
भगवान ने हमें जीवन  
और सांस दी है, हम  
पवित्र पुस्तक, बाइबल  
के पन्नों को पढ़ने में  
सक्षम हो सकते हैं।

The Bible has full of  
God's teachings and  
counsels.



बाइबल में ईश्वर की  
शिक्षाओं और परामर्शों  
की भरमार है।

God's Words are our  
daily food for our souls.

परमेश्वर के शब्द हमारी  
आत्माओं के लिए हमारे  
दैनिक भोजन हैं

With love,  
प्यार से,

Bro. Roger Alim Rodriguez